

**पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर**  
**सत्रीय कार्य (Assignment Work) सत्र – जनवरी–दिसंबर 2024**  
**एम.ए./एम.एससी. (गणित) पूर्व**

**विषय – Topology**

**प्रश्नपत्र: प्रथम**

**पूर्णांक : 30**

**न्यूनतम उत्तीर्णांक: 12**

**नोट:-** परीक्षार्थी प्रत्येक खण्ड के निर्देशों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों को हल करें।

**परीक्षार्थी हेतु निर्देश :**

**सत्रीय कार्य-1**

खण्ड अ – अति लघुउत्तरीय प्रश्न (1 से 8) कुल 08 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रति प्रश्न 0.5 अंक उत्तर शब्द सीमा 1–2 शब्द या एक वाक्य।

खण्ड ब – अति लघुउत्तरीय प्रश्न (9 से 14) कुल 06 प्रश्न है जिसमें से कोई 04 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 01 अंक का होगा। उत्तर शब्द सीमा 75 या आधा पेज।

**सत्रीय कार्य-2**

खण्ड स – लघुउत्तरीय प्रश्न (15 से 18) कुल 04 प्रश्न है जिसमें से कोई 03 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 02 अंक का होगा। उत्तर शब्द सीमा 150 या एक पेज।

**सत्रीय कार्य-3**

खण्ड द – अर्द्ध दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (19 से 22) कुल 04 प्रश्न है जिसमें से कोई 02 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 04 अंक का होगा। शब्द सीमा 300 या दो पेज।

**सत्रीय कार्य-4**

खण्ड ई – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (23 से 24) कुल 02 प्रश्न है जिसमें से कोई 01 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 08 अंक का होगा। उत्तर की शब्द सीमा 600–750 या 4–5 पेज।

**सत्रीय कार्य- 1**

**(Assignment—1)**

**Section—A**

Chose the correct answer :

1. Every subset of countable set is :
  - (a) Infinite
  - (b) Countable
  - (c) Uncountable
  - (d) None of the above
  
2. The set of negative integers having the least upper bound :
  - (a) 1
  - (b) -1
  - (c) 0
  - (d) 4

3. In a metric space every derived set is :
- Open
  - Not open
  - Closed
  - Not closed
4. If A and B are subsets of a metric space, then :
- $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$
  - $(A \cap B)^\circ = A^\circ B^\circ$
  - $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cup B^\circ$
  - None of the above
5. A compact subset of a Hausdorff space is :
- Closed
  - Compact
  - Open
  - None of the above
6. Let X be a set for which a topology T is defined, then :
- Only X is in T.
  - $\phi$  and X are in T.
  - Only X is not in T.
  - None of the above
7. Every Hausdorff group is :
- Normal
  - Regular
  - Completely regular
  - None of the above
8. Every metrizable space is :
- Normal
  - Disjoint
  - Hausdorff
  - None of the above

### **Section—B**

9. If  $n(A) = 3, n(B) = 6$ , and  $A \subseteq B$ , then find number of elements in  $A \cup B$ .
10. Define lower bound of a set.
11. Define closer of a set.
12. Define dense set
13. Define Housdorff topological space.
14. Define regular space.

सत्रीय कार्य— 2  
(Assignment—2)

**Section—C**

15. Prove that any non-empty subset  $Z_+$  has smallest element.
16. State and prove general induction principle.
17. Prove that there exists at least one rational number between any two real numbers  $a$  and  $b$  ( $a < b$ ) and therefore infinitely many relations between  $a$  and  $b$ .
18. Prove that if  $(X, d)$  be a metric space and  $x, y, z$ , be any three points in  $X$ , then :

$$d(x, v) \geq |d(x, z) - d(z, y)|$$

सत्रीय कार्य— 3

(Assignment—3)

**Section—D**

19. Any subset of  $Z_+$  is either finite or countably infinite.
20. Prove that :
  - (i)  $\phi$  and  $R$  are both open and closed.
  - (ii) The union of an arbitrary family of open set is open.
21. Write short notes on the following :
  - (i) The product topology
  - (ii) The quotient topology
22. Prove that a closed subspace of a normal space is normal.

सत्रीय कार्य— 4

(Assignment—4)

**Section—E**

23. State and prove Holder's inequality.
24. Prove that the following are equivalent :
  - (i)  $X$  is connected.
  - (ii) The only clopen (closed and open) subsets of  $X$  are  $\phi$  and  $X$ .
  - (iii)  $X$  has no separations.
  - (iv) Every continuous map  $X \rightarrow \{0, 1\}$  to the discrete space  $\{0, 1\}$  is constant.

**आवश्यक निर्देश :-**

1. सत्रीय लेखन कार्य को घर से लिखकर उत्तरपुस्तिका दिनांक 31 अगस्त 2024 तक संबंधित अध्ययन केन्द्र में जमा करें। सत्रीय कार्य स्व-हस्तलिखित होना चाहिए। दूसरे के द्वारा लिखा गया, फोटोकापी या पुस्तक का हिस्सा चिपकाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा।
2. छात्र सत्रीय कार्य लेखन हेतु अन्य संदर्भित पुस्तकों का भी उपयोग कर सकते हैं।
3. सत्रांत परीक्षा सत्र जनवरी-दिसंबर 2024 का सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का स्वरूप सत्रीय कार्य जनवरी-दिसंबर 2024 जैसा ही रहेगा।
4. सत्रीय कार्य के मूल्यांकन में छात्र द्वारा किए गए अध्ययन एवं लेखन, विषय की व्याख्या तथा लेखन में मौलिकता को आधार बनाया जायेगा। इसमें अध्ययन लेखन पर अधिकतम 60 प्रतिशत (18 अंक ) दिया जावेगा, विषय-वस्तु की व्याख्या के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत (6 अंक) तथा सृजनात्मक, मौलिक-सोच प्रदर्शित होने पर अधिकतम 20 प्रतिशत (6 अंक) प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मूल 100 प्रतिशत (30 अंक) का विभाजन रहेगा।

**पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर**  
**सत्रीय कार्य (Assignment Work) सत्र – जनवरी–दिसंबर 2024**  
**एम.ए./एम.एससी. (गणित) पूर्व**

**विषय – Real Analysis****प्रश्नपत्र: द्वितीय****पूर्णांक : 30****न्यूनतम उत्तीर्णांक: 12**

नोट:- परीक्षार्थी प्रत्येक खण्ड के निर्देशों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों को हल करें।

परीक्षार्थी हेतु निर्देश :

**सत्रीय कार्य-1**

खण्ड अ – अति लघुउत्तरीय प्रश्न (1 से 8) कुल 08 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रति प्रश्न 0.5 अंक उत्तर शब्द सीमा 1–2 शब्द या एक वाक्य।

खण्ड ब – अति लघुउत्तरीय प्रश्न (9 से 14) कुल 06 प्रश्न है जिसमें से कोई 04 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 01 अंक का होगा। उत्तर शब्द सीमा 75 या आधा पेज।

**सत्रीय कार्य-2**

खण्ड स – लघुउत्तरीय प्रश्न (15 से 18) कुल 04 प्रश्न है जिसमें से कोई 03 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 02 अंक का होगा। उत्तर शब्द सीमा 150 या एक पेज।

**सत्रीय कार्य-3**

खण्ड द – अर्द्ध दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (19 से 22) कुल 04 प्रश्न है जिसमें से कोई 02 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 04 अंक का होगा। शब्द सीमा 300 या दो पेज।

**सत्रीय कार्य-4**

खण्ड ई – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (23 से 24) कुल 02 प्रश्न है जिसमें से कोई 01 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 08 अंक का होगा। उत्तर की शब्द सीमा 600–750 या 4–5 पेज।

**सत्रीय कार्य- 1****(Assignment—1)****Section—A**

1. Write the minimal element of the interval [0, 1].
2. The value of  $\lim_{x \rightarrow 0} x^x$  is .....
3. A constant function is Riemann integrable. (True/False)

4. The geometric series  $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$  is convergent, if.....

5. If  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  is defined as follows :

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3axy$$

then find the value of  $f_x$ .

6. If  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ , then  $\text{Adj } A = ?$

7. Write the value of  $\int_1^2 \int_0^{3y} y dy dx$ .
8. If  $A$  be a non-singular matrix, then  $(A^{-1})^{-1}$  is equal to ..... ..

### Section—B

9. State the triangular inequality for real numbers.
10. Check the continuity of the function :

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}, \text{ at } x = 3$$

11. Prove that  $\int_0^\infty xe^{-x} dx$  is convergent.

12. Evaluate :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots, \frac{n+1}{n} \right)^{1/n}$$

13. In  $\mathbf{R}^4$  let  $x = (1, -2, 6, 5)$  and  $y = (3, -5, 4, 1/2)$ , then find  $x + y$ .
14. Define norm of a matrix.

सत्रीय कार्य— 2

(Assignment—2)

### Section—C

15. State Rolle's theorem and prove it.

16.  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ , such that

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ is rational} \\ 1, & x \text{ is irrational} \end{cases}$$

then prove that  $f$  is Riemann integrable.

17. If  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  is defined as follows :

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3axy,$$

then find the value of  $f_{xy}$  and  $f_{xx}$ .

18. Evaluate  $\iint_R (x^2 + y^2) dx dy$ , where  $R$  is bounded by  $x = 0, y = 0, x + y = 1$ .

सत्रीय कार्य— 3

(Assignment—3)

### Section—D

19. Suppose that  $f$  is monotonic on  $(a, b)$  and define :

$$\alpha = \inf_{a < x < b} f(x) \text{ and } \beta = \sup_{a < x < b} f(x)$$

Prove that if  $f$  is non-decreasing, then  $f(a^+) = \alpha$  and  $f(b^-) = \beta$ .

20. Let  $f$  be defined on  $[a,b]$ . Then prove that  $f$  is continuous at  $x_0$  in  $[a,b]$  if and only if  $w_f(x_0) = 0$ .

21. Prove that, if

$$f(x,y) = \frac{1}{x+2y+1},$$

then  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} f(x,y)$  does not exist, but  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} |f(x,y)| = \infty$ .

22. Solve the following equations :

$$4x + 2y + z = 1$$

$$3x - y + 2z = 2$$

$$y + 2z = 0$$

by Cramer's rule.

सत्रीय कार्य— 4

(Assignment—4)

### Section—E

23. State and prove Hein-Borel theorem.

24. Evaluate :

$$I = \int_T y d(x,y)$$

where  $T$  is the region in the  $xy$ -plane bounded by the curve whose points have polar coordinates satisfying  $r=1-\cos\theta$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ .

### आवश्यक निर्देश :-

1. सत्रीय लेखन कार्य को घर से लिखकर उत्तरपुस्तिका दिनांक 31 अगस्त 2024 तक संबंधित अध्ययन केन्द्र में जमा करें। सत्रीय कार्य स्व-हस्तलिखित होना चाहिए। दूसरे के द्वारा लिखा गया, फोटोकापी या पुस्तक का हिस्सा चिपकाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा।
2. छात्र सत्रीय कार्य लेखन हेतु अन्य संदर्भित पुस्तकों का भी उपयोग कर सकते हैं।
3. सत्रांत परीक्षा सत्र जनवरी-दिसंबर 2024 का सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का स्वरूप सत्रीय कार्य जनवरी-दिसंबर 2024 जैसा ही रहेगा।
4. सत्रीय कार्य के मूल्यांकन में छात्र द्वारा किए गए अध्ययन एवं लेखन, विषय की व्याख्या तथा लेखन में मौलिकता को आधार बनाया जायेगा। इसमें अध्ययन लेखन पर अधिकतम 60 प्रतिशत (18 अंक) दिया जावेगा, विषय-वस्तु की व्याख्या के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत (6 अंक) तथा सृजनात्मक, मौलिक-सौच प्रदर्शित होने पर अधिकतम 20 प्रतिशत (6 अंक) प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मूल 100 प्रतिशत (30 अंक) का विभाजन रहेगा।

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
 सत्रीय कार्य (Assignment Work) सत्र – जनवरी–दिसंबर 2024  
 एम.ए./एम.एससी. (गणित) पूर्व

**विषय – Partial Differential Equation**

प्रश्नपत्र: तृतीय

पूर्णांक : 30

न्यूनतम उत्तीर्णांक: 12

नोट:- परीक्षार्थी प्रत्येक खण्ड के निर्देशों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों को हल करें।

परीक्षार्थी हेतु निर्देश :

**सत्रीय कार्य-1**

खण्ड अ – अति लघुउत्तरीय प्रश्न (1 से 8) कुल 08 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रति प्रश्न 0.5 अंक उत्तर शब्द सीमा 1–2 शब्द या एक वाक्य।

खण्ड ब – अति लघुउत्तरीय प्रश्न (9 से 14) कुल 06 प्रश्न है जिसमें से कोई 04 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 01 अंक का होगा। उत्तर शब्द सीमा 75 या आधा पेज।

**सत्रीय कार्य-2**

खण्ड स – लघुउत्तरीय प्रश्न (15 से 18) कुल 04 प्रश्न है जिसमें से कोई 03 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 02 अंक का होगा। उत्तर शब्द सीमा 150 या एक पेज।

**सत्रीय कार्य-3**

खण्ड द – अर्द्ध दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (19 से 22) कुल 04 प्रश्न है जिसमें से कोई 02 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 04 अंक का होगा। शब्द सीमा 300 या दो पेज।

**सत्रीय कार्य-4**

खण्ड ई – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (23 से 24) कुल 02 प्रश्न है जिसमें से कोई 01 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 08 अंक का होगा। उत्तर की शब्द सीमा 600–750 या 4–5 पेज।

सत्रीय कार्य- 1

(Assignment—1)

**Section—A**

1. Partial differential equation  $ap = q$  is PDE of order :
  - (a) 0
  - (b) 1
  - (c) 2
  - (d) 3
2. Partial differential equations  $pq = 1$  is of the following standard form :
  - (a) I
  - (b) II
  - (c) III
  - (d) IV
3. General solution of PDE  $r + t + 2s = 0$  is :

- (a)  $y+x = \phi(y-x)$   
 (b)  $z = \phi(y-x, y-x)$   
 (c)  $z = \phi_1(y-x) + x\phi_2(y-x)$   
 (d)  $y+x = x\phi(y-x)$
4. A surface satisfying  $t=6x^3y$ , containing the two lines  $y=0, y=1=z$  is :  
 (a)  $z = x^2y^3 + y(1-x^3)$   
 (b)  $f(x^3+y^3)(x^2+y^2)=0$   
 (c)  $f(x^3-y^3)(x^2-y^2)=0$   
 (d) None of the above
5. Which of the following is elliptic ?  
 (a) Laplace's equation  
 (b) Wave equation  
 (c) Heat equation  
 (d)  $u_{xx} - 2u_{xy} + 4u_{yy} = 0$
6. Heat equation  $\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$  is also known as :  
 (a) Diffusion equation  
 (b) Poisson's equation  
 (c) Gauss' equation  
 (d) Green's equation
7. Classify the equation  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$  :  
 (a) Parabolic  
 (b) Elliptic  
 (c) Hyperbolic  
 (d) None of the above
8. A delta function of strength 0 is :  
 (a) 1  
 (b) Null  
 (c) Infinity  
 (d) None of the above

### Section—B

9. Define order and degree of PDE.  
 10. Solve :

$$t = \sin xy$$

11. Solve :

$$r+s-6t = y \cos x$$

12. Show that if a harmonic function vanishes everywhere on the boundary, then it is identically zero everywhere.

13. Find a general spherically symmetric solution of the following Helmholtz equation :

$$(\nabla^2 - k^2)u = 0$$

14. If an ordinary function  $f(x)$  has a simple zero at  $x = a$ , then  $\delta\{f(x)\} = \frac{\delta(x-a)}{|f(a)|}$ .

सत्रीय कार्य— 2

(Assignment—2)

### Section—C

15. Find the general solution of the following differential equation :

$$(mz-ny)p + (nx-lz)q = ly-mx$$

16. Find the surface satisfying the equation  $r+t-25=0$  and conditions that  $bz=y^2$  when  $x=0$  and  $az=x^2$  when  $y=0$ .

17. Find the solution of exterior Dirichlet's problem for a circle.

18. Find the temperature in a sphere of radius  $a$  when its surface is maintained at zero temperature while its initial temperature is  $f(r,\theta)$ .

सत्रीय कार्य— 3

(Assignment—3)

### Section—D

19. Find the complete integral of the partial differential equation  $p^2x+q^2y=z$ .

20. Solve the boundary value problem  $\frac{\partial u}{\partial x} = 4 \frac{\partial u}{\partial y}$  with  $u(0,y) = 8e^{-3y}$  by the method of separation of variables.

21. State and prove uniqueness theorem.

22. Solve the Dirichlet's problem for the disc  $\nabla^2u=h(x,y)$  in D such that  $x^2+y^2 \leq R^2$  with boundary conditions  $u=f(\theta)$  on  $\partial T$  given by  $x^2y^2=R$ .

सत्रीय कार्य— 4

(Assignment—4)

### Section—E

23. Find the steady state temperature distribution in a thin rectangular plate bounded by the lines  $x=0, x=a, y=0, y=b$ . The edges  $x=0, x=a, y=0$  are kept at temperature zero while the edge  $y=b$  is kept at  $100^\circ C$ .

25. Find the Green's function for the infinite sector  $0 \leq \theta \leq \alpha$ ,  $0 \leq r \leq \infty$  in the polar form.  
Hence solve the boundary value problem given by  $\nabla^2 u = 0$  with boundary conditions  
 $u(r, 0) = f(r)$ ,  $u(r\alpha) = g(r)$ .

### आवश्यक निर्देश :—

1. सत्रीय लेखन कार्य को घर से लिखकर उत्तरपुस्तिका दिनांक 31 अगस्त 2024 तक संबंधित अध्ययन केन्द्र में जमा करें। सत्रीय कार्य स्व-हस्तालिखित होना चाहिए। दूसरे के द्वारा लिखा गया, फोटोकापी या पुस्तक का हिस्सा चिपकाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा।
2. छात्र सत्रीय कार्य लेखन हेतु अन्य संदर्भित पुस्तकों का भी उपयोग कर सकते हैं।
3. सत्रांत परीक्षा सत्र जनवरी-दिसंबर 2024 का सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का स्वरूप सत्रीय कार्य जनवरी-दिसंबर 2024 जैसा ही रहेगा।
4. सत्रीय कार्य के मूल्यांकन में छात्र द्वारा किए गए अध्ययन एवं लेखन, विषय की व्याख्या तथा लेखन में मौलिकता को आधार बनाया जायेगा। इसमें अध्ययन लेखन पर अधिकतम 60 प्रतिशत (18 अंक) दिया जावेगा, विषय-वस्तु की व्याख्या के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत (6 अंक) तथा सृजनात्मक, मौलिक-सोच प्रदर्शित होने पर अधिकतम 20 प्रतिशत (6 अंक) प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मूल 100 प्रतिशत (30 अंक) का विभाजन रहेगा।

**पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर**  
**सत्रीय कार्य (Assignment Work) सत्र – जनवरी–दिसंबर 2024**  
**एम.ए./एम.एससी. (गणित) पूर्व**

**विषय – Discrete Mathematics****प्रश्नपत्र: चतुर्थ****पूर्णांक : 30****न्यूनतम उत्तीर्णांक: 12**

**नोट:**— परीक्षार्थी प्रत्येक खण्ड के निर्देशों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों को हल करें।

परीक्षार्थी हेतु निर्देश :

**सत्रीय कार्य-1**

खण्ड अ – अति लघुउत्तरीय प्रश्न (1 से 8) कुल 08 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रति प्रश्न 0.5 अंक उत्तर शब्द सीमा 1–2 शब्द या एक वाक्य।

खण्ड ब – अति लघुउत्तरीय प्रश्न (9 से 14) कुल 06 प्रश्न है जिसमें से कोई 04 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 01 अंक का होगा। उत्तर शब्द सीमा 75 या आधा पेज।

**सत्रीय कार्य-2**

खण्ड स – लघुउत्तरीय प्रश्न (15 से 18) कुल 04 प्रश्न है जिसमें से कोई 03 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 02 अंक का होगा। उत्तर शब्द सीमा 150 या एक पेज।

**सत्रीय कार्य-3**

खण्ड द – अद्वृद्धीर्ध उत्तरीय प्रश्न (19 से 22) कुल 04 प्रश्न है जिसमें से कोई 02 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 04 अंक का होगा। शब्द सीमा 300 या दो पेज।

**सत्रीय कार्य-4**

खण्ड ई – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (23 से 24) कुल 02 प्रश्न है जिसमें से कोई 01 प्रश्न हल करें। प्रति प्रश्न 08 अंक का होगा। उत्तर की शब्द सीमा 600–750 या 4–5 पेज।

**सत्रीय कार्य- 1****(Assignment—1)****Section—A**

1. In a Boolean Algebra for each  $a \in B$  the complement of  $a$  is the same element, that is  $(a')' = a$ , then write the name of the property of Boolean Algebra.
2. Let A and B are two sets and  $A \cap B = \emptyset$ , then sets are called .....
3. If  $f : X \rightarrow Y$  be any arbitrary mapping defined from X to Y. Let A and B be any subsets of X, then : (True/False)

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

4.  $G = \{1, -1, i, -i\}$  is a group, then find the order of group G.
5.  $G = \{1, -1\}$  is a multiplicative group, then write identity element of group G.
6. The intersection by two vector subspaces is always a vector subspace. (True/False)
7. If  $a \in R$ , where  $(R, +, .)$  is a Boolean ring, then  $a^2$  is equal to .....
8. If A and B be any two invertible linear transformations on vector space  $V(F)$ , then  $(AB)^{-1}$  is equal to .....

**Section—B**

9. Define power set.

10. Define one-one, onto mapping.
11. Find the order of all elements in a group  $(1, \omega, \omega^2)$ .
12. Define Integral Domain.
13. What is Linear Transformation ?
14. Write idempotent law in Boolean Algebra.

सत्रीय कार्य— 2  
(Assignment—2)

### Section—C

15. Write T-table for Bi-conditional statement for any two atomic statements  $p$  and  $q$ .
16. Show that every cyclic groups is abelian.
17. Define Normal subgroup with examples.
18. Prove that the intersection of two subrings is always a subring.

सत्रीय कार्य— 3  
(Assignment—3)

### Section—D

19. Show that the mapping  $T : V_3(R) \rightarrow V_2(R)$  defined by  $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_1 + x_3)$  is linear transformation. Find its range, rank, null space, nullity as well as  $T$  is singular or non-singular.
20. If  $(R, +, .)$  be a ring, such that  $a^2 = a \quad \forall a \in R$ , prove that :
  - (i)  $a + a = 0 \quad \forall a \in R$  is each element of  $R$ .
  - (ii)  $a + b = a \Rightarrow a = b$
21. Show that the  $n$ th roots of unity is an Abelian group.
22. Show that the vector  $(1, 0, 0)$ ,  $(1, 1, 0)$  and  $(1, 1, 1)$  is a basis for  $R^3$  on  $V_3(R)$ . Also express standard basis of  $R^3$  in term of basis S.

सत्रीय कार्य— 4  
(Assignment—4)

### Section—E

23. If  $(D_n, \leq)$  be poset (partial ordered set), where  $D_n$  is set of all positive divisors of positive integer ' $n$ ' and  $a \leq b$  if and only if  $\frac{a}{b}$  ( $a$  divisor of  $b$ ), then determine  $D_{20}$  and show that it is a lattice. Also select a Hasse diagram for  $D_{20}$ .
24. Show that the map  $f : V_2(R) \rightarrow V_2(R)$  defined by :
 
$$f(x, y) = (x \cos \theta + y \sin \theta, -x \sin \theta + y \cos \theta)$$

(where  $\theta$  is angle through which axes are rotated) is an isomorphism.

### आवश्यक निर्देश :-

1. सत्रीय लेखन कार्य को घर से लिखकर उत्तरपुस्तिका दिनांक 31 अगस्त 2024 तक संबंधित अध्ययन केन्द्र में जमा करें। सत्रीय कार्य स्व-हस्तलिखित होना चाहिए। दूसरे के द्वारा लिखा गया, फोटोकापी या पुस्तक का हिस्सा विपकाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा।
2. छात्र सत्रीय कार्य लेखन हेतु अन्य संदर्भित पुस्तकों का भी उपयोग कर सकते हैं।
3. सत्रांत परीक्षा सत्र जनवरी-दिसंबर 2024 का सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का स्वरूप सत्रीय कार्य जनवरी-दिसंबर 2024 जैसा ही रहेगा।
4. सत्रीय कार्य के मूल्यांकन में छात्र द्वारा किए गए अध्ययन एवं लेखन, विषय की व्याख्या तथा लेखन में मौलिकता को आधार बनाया जायेगा। इसमें अध्ययन लेखन पर अधिकतम 60 प्रतिशत (18 अंक ) दिया जावेगा, विषय-वस्तु की व्याख्या के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत (6 अंक) तथा सृजनात्मक, मौलिक-सौच प्रदर्शित होने पर अधिकतम 20 प्रतिशत (6 अंक) प्राप्त हो सकत है। इस प्रकार मूल 100 प्रतिशत (30 अंक) का विभाजन रहेगा।